

DUE DATE SLIP

GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DTATE	SIGNATURE

रवीन्द्र-पद्य-कथा

[कवि गुरु रवीन्द्रनाथ की उन्नीस कथात्मक कविताओं का अनुवाद]

अनुवादक :

भदरभोपाल शर्मा एम्. ए.

(हिन्दी व्याख्याता, राजस्थान कॉलेज, जयपुर)

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

प्रकाशक

डॉ० मोतीलाल मेनारिया

संचालक

राजस्थान साहित्य अकादमी

उदयपुर ।

प्रथम संस्करण

१९६१

मूल्य

एक रुपया पचास नये पैसे

मुद्रक

जगन्नाथ यादव

अध्यक्ष

केशव आर्ट प्रिण्टर्स

अजमेर ।

प्रकाशकोथ निवेदन

*

स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियाँ आज भारतीय वाङ्मय में ही नहीं, अपितु विश्व-साहित्य में समादरणीय हैं। विभिन्न भाषाओं में उनके अनुवाद हुए हैं। इतना ही नहीं, कई विद्या-व्यसनी तो रवीन्द्र, शरत् और बंकिम का साहित्य समझ पाने के लिये ही बंगला सीखते हुए देखे गये हैं।

साहित्यकार चाहे किसी भी भाषा में रचना करे, वह साहित्य मात्र उसी भाषा-भाषी क्षेत्र के लिये न होकर समूची मानवता के लिये होता है। इसीलिये उसकी आवाज को जन-जन तक पहुँचाने का दायित्व निभाया जाता है और इसीलिये भाषा और लिपि के एकीकरण की बात सोची जाती है।


राजस्थान साहित्य अकादमी ने रवीन्द्र-शताब्दी-समारोह के अवसर पर यह आवश्यक और उपयुक्त समझा कि विश्व-कवि की कुछ रचनाओं का राजस्थानी-अनुवाद प्रकाशित किया जाय प्रस्तुत प्रकाशन उसी निश्चय की क्रियान्विति है। अनुवाद या रूपान्तर का काम वस्तुतः बड़ा कठिन है भाषाओं का जन्म और विकास वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधारों पर होता है। अतः एक भाषा की अभिव्यंजना किसी दूसरी भाषा में पूर्णरूपेण समाहित नहीं हो पाती। फिर भी श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद किये जाने के महत्त्व से असहमति प्रकट नहीं की जा सकती।

प्रस्तुत प्रकाशन अपने उद्देश्य में कितना सफल रहा है, इस मूल्यांकन की अपेक्षा हमसे नहीं, पाठकों से ही की जानी चाहिये।

डॉ० मोतीलाल मेनारिया

संचालक,

राजस्थान साहित्य अकादमी,



मदनगोपाल शर्मा

जनम-स्थान : सामोद (जयपुर)

जन्म-तिथि : २० मई १९२६ ई०

प्रस्तुत 'पद्य-कथा' के प्रस्तोता-कवि मदनगोपाल शर्मा को काव्य-प्रणयन की प्रेरणा अपने किशोर-काल से ही रही है। राष्ट्रकर्मी परिवार से सम्बद्ध राजनीतिक विरासत के धूमिल आंगन को छोड़कर वकालत और प्रशामकीय अनुभव की सँकरी गलियों से गुजरते हुए हर्ष और संघर्ष से अनुप्राणित इस साहित्य-पथिक को अन्ततः वीणापाणि की स्वरछाया में ही विश्रान्ति मिल सकी।

रंग और व्यंग के धनी इस शिल्पी की रचनाओं में मर्मंगीति और समाजनीति दोनों के स्वर मुखर रहे हैं। प्रबंध-पटुता कवि की अपनी विशिष्टता रही है। रस-सृष्टा के साथ ही साथ वह मर्मदृष्टा भी है। आलोचना के क्षेत्र में भी उनसे अनेक आशाएँ हैं। आपके अनेकों गीत-वाताँव और लगभग डेढ़ दर्जन गीति-नाट्य आकाशवाणी के विविध केन्द्रों से प्रसारित हो चुके हैं। अपने काव्य-संग्रहों-स्वर्ण-विहान, सुमनों की मुसकान, गीति वितान और उन्मुक्त उडान में कवि की प्रेरणा ने काव्य की विविध क्षितिजों को स्पर्श किया है। कवि के रूप में हिन्दी और राजस्थानी का समान वरदान उन्हें प्राप्त है। वर्तमान में शर्माजी राजस्थान-कॉलेज में हिन्दी प्राध्यापक हैं और राजस्थान के सन्त साहित्य पर शोधकार्य में रत हैं।

पता—रामकुटीर, गोपालपुरा,
दुर्गापुरा रोड, जयपुर।

दो शब्द



प्रस्तुत पुस्तक गुरुदेव रवींद्रनाथ की उन्नीस कथात्मक कविताओं का अनुवाद है। इन कविताओं का चयन मैंने उनके काव्य-संग्रह 'संचयिता' और 'कथा-कहानी' (कथा और कहानी) से किया है। चयन में कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं रहा फिर भी कविताओं की सरलता और लोकप्रियता का ध्यान मैंने अवश्य रखा है। यद्यपि इस संग्रह की एक कविता 'वे दिन' (शे काल) कथात्मक नहीं है तो भी उसकी सरसता और काव्य सौष्टव के कारण मैं उसके अनुवाद का लोभ संवरण नहीं कर सका हूँ।

अनुवाद में मूल के भाव और लय के अविक्रम सादृश्य का निर्वाह ही मेरा मुख्य लक्ष्य रहा है। शब्द रूपी व्याकरण के नियमों में कवि को (विशेषतः अनुवाद कार्य में) उदार स्वतंत्रता देने का मैं सदा से पक्षपाती रहा हूँ। तद्विषयक पक्ष समर्थन का उचित अवसर यह नहीं है अतः आत्म निवेदन से ही यहीं संतोष माने लेता हूँ

इस अनुवाद का मुख्य श्रेय किंगनगढ़ के मेरे अमिन्न मित्र डा० सत्यकुमार बोस को है। वस्तुतः यह उन्हीं के आग्रह और अनुग्रह का प्रसाद है।

आदरणीय गुरुवरु डा० सरनामसिंह शर्मा 'अरुण' ने भी इस अनुवाद कार्य को संशोधित और मुझे प्रोत्साहित किया है । उन्हें किन शब्दों में धन्यवाद दूँ ? मैं उनका चिरकृणी हूँ । राजस्थान कालेज के उदारमना मनीषी आचार्य श्री आर्थर ह्यूज महोदय का भी मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ जिनका कृपापूर्णा मार्ग-दर्शन मुझे मिलता रहा है ।

राजस्थान साहित्य अकादमी को भी धन्यवाद है कि उसने इसका प्रकाशन स्वीकार कर मुझे चिन्तामुक्त किया है ।

—अनुवादक

रवीन्द्र-पद्य-कथा


कवि गुरु रवीन्द्रनाथ की उन्नीस
कथात्मक कविताओं का अनुवाद

रवीन्द्र-पद्य-कथा

[कविगुरु रवीन्द्रनाथ की १६ कथात्मक

कविताओं का अनुवाद]

१. अभिसार	१
२. होली का खेल	५
३. प्रण-रक्षा	१०
४. ब्राह्मण	१३
५. राजविचार	१७
६. नकलगढ़	१८
७. विवाह	२०
८. सामान्य क्षति	२५
९. पुजारिणी	३१
१०. प्रतिनिधि	३६
११. नगर-लक्ष्मी	४३
१२. स्पर्शमणि	४६
१३. दीनदान	४९
१४. पुरातन भृत्य	५२
१५. मूल्य प्राप्ति	५८
१६. वे दिन (शेकाल)	६२
१७. बंदी वीर	६९
१८. श्रेष्ठ भिक्षा	७६
१९. प्रार्थनातीत दान	७९




गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर

अभिसार



•

संन्यासी उपगुप्त,
मथुरापुरी प्राचीर तले एकदा थे सुप्त ।
हो गए थे नगरी के दीप वायु-विपित
हो चुके थे पौर भवनों के द्वार विजड़ित
नक्षत्र निशीथ के,
श्रावण-गगन-घन-मेघाच्छन्न हुए लुप्त ।
तूपुर शिजित पद,
आकर किसी का लगा संन्यासी के वक्ष में ।
संन्यासी प्रवर एकाएक चींक कर जागे
स्वप्न जड़िमा मराल पलक तटों से भागे
अयाचित आकस्मिक
दीपालोक हो उठा असह्य युग-चक्षु में ।
नगरी की नर्तकी,
चली अभिसार हेतु जीवन मदंगजा ;
अंग पर अंचल था शोभित सुनील वर्ण
रुन-भुन रव वजते थे स्वर्ण-आभरण
पदाघात होते ही,
रुक गई वासवदत्ता रूपसी अनंगजा ॥



आगे कर दीप को,
देखी गणिका ने यति की नवीन गौर कांति ।
सौम्य स्मिति व्याप्त गौर त्वरुण वदन में
करुणा-किरण की पुलक थी नयन में
शुभ्र भव्य भाल पर,
शोभित थी शुभ्र शरदेन्दु की विमल शांति ।

कहती है रमणी,
गद्गद कंठ, नयनों में मुग्ध लज्जा है ।
क्षमा अपराध मेरा संन्यासी कुमार हो
कर दें पवित्र गृह, करुणा अपार हो ।
यह धरणी का तल,
कठिन कठोर यह, आपकी न सज्जा है ।'

'अयि लावण्य प्रतिमे ।

आग्रह तुम्हारा अभी मान नहीं पाएँगे
समय हमारा अभी हुआ नहीं गणिके
जहाँ तुम्हें जाना, अभी जाओ वहाँ धतिके
समय आएगा तो,
आप ही तुम्हारे पास हम चले आएँगे'

अकस्मात् भङ्गा ने,

तड़ित शिखा से किया नभ में विपुल लास ।
रम्या कोमलांगी वह काँप उठी त्रास से
प्रलय का शंख बजा कुपित वातास में
घोर परिहास से
वजू नभ में विकट कर उठा अट्टहास




उसी वर्ष चैत्र के
 मंदिर मधुमास की सुहानी एक संध्या थी ।
 जबकि वातास घूमता था मंदगंधाकुल
 पथ पर शाखाग्रों ने धारण किए मुकुल
 राजवन में खिले—
 पारुल वकुल, प्रमुदित निशिगंधा थी ।

दूर से पवन पर
 वह कर आ रहे हैं स्वर मुरली के मंद्र ।
 जनहीन नगरी थी, नगर निवासी सब
 गए मधुवन में मनाने को ये पुष्पोत्सव
 धून्य नगरी निहार,
 हँस उठा मंद मंद पूर्णिमा का शुभ चंद्र ।

जनहीन पथ में,
 कौन चांदनी में चला जाता यह यात्री है ?
 शीश पर छाया तरु वीथिका का है प्रसार
 कोकिल की कूक गूँज उठती है बार-बार
 इतने दिनों के बाद,
 योगी क्या तुम्हारी आई अभिसार रात्रि है ?

नगरी को त्याग कर
 ढंडी चले एकांत प्राचीर-बाह्य प्रांत में ।
 खड़े हुए आकर वे परिखा-पछाँह में
 धाम्र-उपवन की सघन श्याम छाँह में
 कौन वह रमणी,
 पड़ी एकाकिनि यों है उनके पदांत में ?



दारुण मसूरिका

रोग से भरे थे उस युवती के सर्वाङ्ग
रोग कालिमा से तन उसका था परिच्छन्न
जानकर उसको अस्पश्यं घृण्य शंकापन्न
बाहर नगर से
फेंका प्रजागण ने समझ उसे विकलांग ॥


बैठ गए संन्यासी

उठा लिया उसका गलित शिर अङ्क में
छोड़ा कुछ जल शुष्क युगल अघर पर
शीश पर पढ़ दिए फिर कुछ मंत्र-स्वर
निज शुचि कर से
गात किये लिप्त शीत चंदन के पंक में

भरते मुकुल हैं

कूजते हैं कोकिल, है ज्योत्स्नामत्त यामिनी
'किसने बचाए मेरे प्राण !' पूछा रोगी ने
'आया अभिसार हेतु आज'-कहा योगी ने
'आज ही की रात्रि में,
समय हुआ है वासवदत्ता महाभागिनी ।'

होली का खेल




[राजस्थान]

●

पत्र दिया है पठान जालिम केशरखां को ।
कँथून से भून्नाग राजा की रानी ने,
'युद्ध-लिप्सा का मियाँ होगया क्या अन्त है ?
वीता जाता देखते ही देखते वसंत है
होली खेलने की मेरी इच्छा, आओ सैन्य ले
सैन्य जो कि सुविख्यात दुर्जय दुरंत है'
युद्ध-एक हार कर कोटा नगर त्याग कर
कँथून से खत भेजा राजपूतनी ने ।

पत्र पढ़ केशरखां हँस पड़ा खुल कर
आन्तरिक सुख से मरोड़ा निज मूँछों को
देख एक पगड़ी सुरंगी, रखी सिर पर
सुरमा भी आँजा फिर आँखों में हुलसकर
हाथ में हमाल लिया भीनी-भीनी गंध भरा
वार-वार फटकारा दाढ़ी को उमंगकर
सोचकर, रंग रानी खेलेगी पठान संग
केशर ने खुश हो मरोड़ा निज मूँछों को ।



फागुन महीना है, वकुल-वन-बोथिका में
 दक्षिण पवन मतवाला सरसाया है
 मंजरित आज आश्रवन में हुआ मुकुल
 आज क्यों किसी की सुनने लगे अमर-कुल
 गुन-गुन जाने मन ही मन क्या गुनते से
 गुंजरित भृङ्ग घूमते स्वच्छंद गंधाकुल
 आज दल का दल पठान सैन्य मदमत
 कैथनपुरी में होली खेलने को आया है ।

वह थी संध्याकाल की सुहानी झुटपुट वेला
 कैथनपुरी के रमणीय राजवन में
 आकर खड़े हुए पठान उपवन में
 छेड़ती है वंशी राग मुल्तानी धुन में
 एक लौ सुदक्ष तब दासियाँ रानी की आईं
 होली खेलने के लिए हो प्रसन्न मन में
 भुरमुट ओट में से रीझा-रीझा भाँकता-सा
 भूलता था राग-रंगारवि भी गगन में ।


पग की घमक, घूम-घूम जाते घाघरे है
 उड़े जाते ओढ़ने है दक्खिन पवन में
 दाहिने हाथों में सब थाली लिए फाग की
 भूलती कटि में पिचकारी रंग-राग की
 रुनक-भुनक इठलाती हुई चलती है
 वाएँ हाथ जल भरी भारी है गुलाब की
 उड़ रहे ओढ़ने हैं, बाँकी क्षत्राणियों का
 उमड़ रहा है दल आज राजवन में ।



आँखें नचा-नचा, मंद मुसका, प्रसन्न मन
 कहते हैं ऐसे पास आकर केशरखाँ
 'सुन्दरि ! अनेक युद्धों में बची हमारी जान
 आज के प्रणय-द्वन्द्व में न पर बचेंगे प्राण !'
 सुन यह वात, अट्टहास में बदल गई
 रानी की सहेलियों की मंद-मंद मुसकान
 करते सलाम लाल पाग हिला झुक-झुक
 सिर तक दाँया हाथ लाकर केशरखाँ ।

शुरु हुई घोर मचामची फिर फागुन की
 उड़ रहा है अवीर लाल संध्याकाश में
 नया रंग चटक उठा वकूल फूल में
 रक्त रेणु भरी पड़ती है तर-मूल में
 मुन क्षत्राणियों का अट्टहास, पक्षियों का
 कृजन सहम, पड़ गया, भय भूल में
 अरुण कुम्भटका के राशि-राशि घन ये
 आगए कहाँ से घिर-घिर संध्याकाश में ?

केशरखाँ क्षुब्ध मन ही मन है सोच रहा
 चढ़ता नहीं है नयनों में उन्माद क्यों ?
 उच्छ्वास वक्ष में नहीं हैं क्यों उमड़ते
 कंकण क्यों कर्ण-कटु सा है रव करते
 रङ्ग की उमङ्ग छली इन वाँकी नारियों के
 तूपुर भी आज कैसे वेमुरे से वजते
 छाई हुई है क्यों एक उन्मत्त विवशता सी
 घेरे लेता हृदय को खिन्न अवसाद क्यों ?'



सोचता पठान है, कठोर राजपूतनी के नहीं है कहीं क्या कुछ कोमलता नेह में बाहुएँ भी तो नहीं मृणालिनी सी दरसें लज्जित होता है वज्र भी तो कंठस्वर से शुष्क मरुस्थल की कड़क कटु बेलें है ये कंटकित है जो जिनमें न रस सरसे सोचता पठान है कठोर राजपूतनी के नहीं है मृदुलता क्या मन में या देह में ।

छेड़ कर इमन भूपाली की सुहानी तान वंशी उस क्षण बज उठी द्रुतलय में कुंडल में डुला कर मुक्ता की माल को हाथ में पहन स्वर्ण-वलय के जाल को मद-मंद गति धर, धीर डग रानी आई थमा कर दासी के हाथों में फाग-थाल को छेड़कर इमन भूपाली की सुहानी तान वंशी उस क्षण बज उठी द्रुतलय में ।

केशरखां कहता है, 'सुन्दरी तुम्हारी राह देख-देख मेरी दोनों आँखें पथरा गईं'
रानी बोली, 'व्याकुल हमारी भी है अखियाँ'
यह सुन त्रिवश-सी हँस उठी सखियाँ
सहसा रानी ने फेंक मारा थाल दुष्ट पर
धुस गया भाल में जो धान में ज्यों हँसिया
घाव हुआ तीक्ष्ण फूट पड़ी तीव्र रक्त-धारा
उस मदांध की दोनों आँखें गईं अंधिया ।



अकस्मात् गढ़ में सुदूर तक गड़-गड़
 गूँज उठा सुघड़ नगाड़ा वजू-घोप सा
 निर्मल आकाश में था शशि मुस्का पड़ा
 खड्गों से फिर उठे खड्ग खड़खड़ा
 शहनाई ने भी पीर द्वार पर गंभीर
 स्वर में वजाना शुरू किया राग कानड़ा
 तमावृत कुंज के निविड़ तर तल में
 गूँज उठा सुघड़ नगाड़ा वजूघोप सा ।

पल में बहाया वायु लहरो में ओढ़नों को
 पलक भपकते ही खोल दिए घाघरे
 अकस्मात् त्याग कर स्त्रेण परिधानों को
 घेर लिया सी-सी शूर वीरों ने पठानों को
 स्त्रियों से पुरुष प्रकटे, ज्यों निकले हों सर्प
 तोड़ पुष्प गुच्छकों के ललित वितानों को
 क्षण में ही मंत्रवत् प्रातः के स्वप्न जैसे
 उड़ गए ओढ़ने औ खुल पड़े घाघरे ।

जिस पथ से पठान कैथूनपुरी में आए
 लौट कर जा न सके फिर उस पथ से
 फागुन की रात में निकुंज के वितान में
 मत्त पिक जानता विराम नहीं तान में
 रानी के हाथों केशरखाँ का खेल हुआ खत्म
 कैथूनपुरी के रमणीय राजोद्यान में
 जिस पथ से पठान कैथूनपुरी में आए
 लौट कर फिर उस पथ से गए नहीं ।



प्रण-रक्षा



•


‘देखो आ रहे हैं वे मरहट्टे दस्युगण
करो सब युद्ध-साज’
अजमेरगढ़ में कहते पुकार कर
दुर्गेश दुमराज
दोपहरी के समय हर कोई अपने
घर में रहा था सेक रोटी जब ज्वार की
तभी दुर्ग तोरण में नगाड़े की गूँज सुन
बाहर आगया छोड़ चिंता घर-बार की
चढ़ के प्राचीर पर देखा तब सबने
दक्षिण में दूर पर
मराठों के घोड़ों से उड़ रही धूल है
नभ में उमड़ कर
‘मराठों का टिड्डीदल हो कृपाण-वह्नि में
यहीं भस्मसात आज
‘भुलस-भुलस मरे लौट कर जा न सके’
गरजा यों दुमराज ।

दूत मारवाड़ से आया और-बोला यों
व्यर्थ यह सैन्य साज



देखो, यह देखो, यह प्रभु का आदेश है
 दुर्गेश दुमराज !
 सिंधिया है आ रहा, साथ में है उसके
 युद्ध-विद्या-कुशल फिरंगी एक सेनापति
 ससम्मान सौंप दो उसे तुम दुर्ग को
 आज यही आज्ञा है स्वामी की तुम्हारे प्रति
 हुई विजय-श्री है विमुख संयोग से
 आज विजयसिंह पर,
 सौंपना ही होगा आज अजमेरदुर्ग को
 बिना ही किए समर'
 'स्वामी के निदेश में, वीर के निवेश में
 हो गया विरोध आज'
 दीर्घ निश्वास ले कहते विवश से
 दुर्गेश दुमराज

मारवाड़ दूत ने घोषणा की सत्वर
 'छोड़ो-छोड़ो रणसाज !'
 पत्थर की मूर्ति सा खड़ा का खड़ा ही रहा
 किन्तु स्तब्ध दुमराज
 जाती-जाती बेला में सांध्यम्लान सुनसान
 धू-धू करता है, दूर-दूर चरती हैं धेनु
 तरतल छाया में सकरुण रव से
 बजा रहे कुछ ग्वाल-बाल हैं विकल वेणु
 जब मैंने दुर्ग का भार लिया तब था
 प्रण किया मन में
 सौंपंगा न शत्रु को दुर्ग यह, जब तक
 प्राण शेष तन में



प्रभु के आदेश से हाय उसी व्रत को
तोड़ना पड़ेगा आज
यही सोच-सोच कर छोड़ते हैं उच्छ्वास
दुर्गेश दुमराज

राजपूत सेना ने त्याग दिया क्षोम और
लज्जा से समर-साज
नीरव खड़े रहे किंतु दुर्ग द्वार में
दुर्गेश दुमराज
गैरिक वसन धार, छवि बिखरा अपार
उत्तर रही है संध्या पश्चिमी मैदान पार
मराठों का सैन्य दल उड़ा धूल के बादल
आकर सन्नद्ध तभी खड़ा हुआ दुर्ग द्वार .
'कौन वह सोया है पास वहाँ द्वार के
उठी, उठी, खोलो द्वार,
सुनता नहीं है क्या ?' प्राणहीन देह हाय
क्यों कर सुने पुकार ?
मालिक के कर्म में और वीर धर्म में
मिटाने विरोध आज
अमर हुआ है तज प्राण दुर्ग द्वार में
दुर्गेश दुमराज


ब्राह्मण



[छांदोग्योपनिषद् ४ प्रपाठक ४ अव्याय]




वन की तमच्छाया में सरस्वती तट पर
अस्त हो गया है श्रांत क्लान्त सांध्य दिनकर
शीश पर समिधा का भार कर आहरण
आश्रम को लीटे आ रहे हैं ऋषि पुत्रगण
लाए घेर वन से तपोवन में शिष्य जन
स्निग्ध शांत आँखों वाली श्रांत होमधेनुगण
संध्या स्नान आदि नित्य कर्म कर समापन
सम्मिलित सबने ग्रहण किया निजासन
गीतम के चारों ओर कुटी के आंगन में
बैठ गए होमाग्नि के ज्योति-विकीरण में
ऊपर, अनंत शून्य निभृत विजन में
ध्यान मग्न महा शांति छाई है गगन में
सारी तारकावली है बैठी कौतूहल स्तब्ध
शिष्य मंडली की भांति मौन और निश्शब्द
भंगकर मौन, बोले गीतम, हो सावधान
'वत्स, कहता हूँ ब्रह्मविद्या, करो अवधान'
ठीक तभी निज कर सम्पुट में अर्घ्य ले



तरुण बालक आया कुटी के आंगन में
 नमित हो, ऋषि के चरण-पद्म पर से
 बोला, पिक-कठ से सुधा से स्निग्ध स्वर से
 'भगवान् ! ब्रह्म-विद्या शिक्षा अभिलाषी हूँ
 आया हूँ दीक्षा के हेतु, कुरु-क्षेत्र वासी हूँ
 सत्यकाम नाम मेरा ।' सुन स्मित हास से
 ब्रह्मर्षि ने कहा स्नेह-स्निग्ध शांतलास से
 'कुशल हो सौम्य, गोत्र जाति क्या तुम्हारी है
 क्योंकि मात्र विप्र ब्रह्म-विद्या अधिकारी है'
 बालक यों बोला मन में शंका सी मानता
 'क्षमा करें भगवान् ! गोत्र नहीं जानता
 माँ से पूछ आऊँ कल, मिले यदि अनुमति'
 यह कह ऋषि-चरणों में करके प्रणति
 चला गया सत्यकाम घनवनवीथी से
 पैदल हो पार क्षीण स्वच्छ सरस्वती से
 बालू के किनारे सुप्ति-मौन ग्राम में निविष्ट
 सत्यकाम जननी की कुटी में हुआ प्रविष्ट
 क्षीण सांध्य-दीप का घर में उजाला था
 माँ थी प्रतीक्षा में द्वारे खड़ी, नाम ज्वाला था
 उसे देख लगा लिया वक्ष से विह्वल हो
 चूम कर भाल, बोली 'क्षेम हो, कुशल हो'
 छूटते ही पूछा सत्यकाम ने, 'माँ अविराम
 कहो किस वंश में मैं जन्मा, क्या पिता का नाम ?
 ब्रह्म-ज्ञान हेतु आज गौतम ऋषि के द्वार
 गया, तो वे बोले यह द्विज का ही अधिकार
 माता क्या हमारा गोत्र बोलो, भूट बोलो न



चुप क्यों हो, कहती नहीं क्यों ? मुख खोलो न'
 सुन यह जननी ने, कहा नत मुख से
 यौवन में वत्स बोर दारिद्र्य के दुख से
 धर-धर परिचर्या की, तुम्हें पाया है
 गीले में सो सदा, तुम्हे सूखे में सुलाया है
 जन्म लिया तूने भर्तृहीना माँ की गोद में
 पाकर मुझे सदा मानती आई मोद में
 जानती नहीं मैं तेरा गोत्र या पिता का नाम
 मैं हूँ तेरी जननी, तू मेरा सुन है ललाम'
 अगले ही दिवस तपोवन में अददात
 तद-शिखरों पर जगा नया-नया प्रभात
 तापस किशोर सब अप्रतिम ओ' अशोक
 गिधिर-सुस्निग्ध जैसे बालारुण का आलोक
 भक्ति-अश्रुवीत कांति जैसे नव-पुण्य-छटा
 जिनकी है प्रातस्नात स्निग्ध छवि, आर्द्र जटा
 सौम्य सृष्टि है जो, दीप्ति जिनकी है काया में
 गौतम को घेर, बँटे वृद्ध-वट-झाया में
 ध्वनित विहगवृन्द का है कलरव गान
 मधुप गुंजन गीति, रम्य जलकल तान
 संग-संग गूँज रहे युवाकंठ से मधुर
 गांत सामगीति के गंभीर मम्मिलित सुर
 ठीक ऐसे समय प्रविष्ट हुआ सत्यकाम
 नत हो, ऋषि के पदपद्म में किया प्रणाम
 निश्चल नयन मिला, बँठ गया चुपचाप
 आशिष आचार्य ने दे प्रश्न किया तब आप
 'गोत्र क्या तुम्हारा है हे सौम्यप्रियदर्शन ?'



उठाकर भाल, कहा बालक ने, भगवन् !
 पूछा जननी से, यही उसने बताया है
 बहु परिचर्या से मैंने तुम्हे पाया है
 जनमा तू भृत्हीना जननी की गोद में
 पाकर मुझे सदा मनाती आई मोद में
 गोत्र जानती न तेरा ।' सुन यह वार्त्ता
 छात्रों ने गुरु की घुसपुस अपनी कथा
 मधुचक्र में ज्यों लोष्ठपात से हो हलचल
 पतिगों की भांति सब हुये विस्मय-विकल
 निर्लज्ज अनार्य का विलोक यह अहंकार
 कोई हँसता है कोई दे रहा है धिक्कार
 आसन को त्याग, मुनि खड़े हुए तत्क्षण
 फैला निज बाहु, किया बालक का आलिंगन
 बोले—'तुम अब्राह्मण नहीं हो कदापि तात
 तुम द्विजोत्तम वत्स, तुम सत्यकुल जात'

राज-विचार



•

विप्र बोले, 'स्त्री थी मेरी रात जिस घर में
चोर वहाँ पहुँचा सतीत्व नष्ट करने
पकड़ लिया है उसे, दूँ क्या दंड, आज्ञा हो ?'
'मृत्यु' बोले उससे रतन रावराजा यों ।

भागा आया चर, बोला, 'चोर तो थे युवराज-
वाँध उन्हें विप्र ने सुवह काट डाला आज
लाया हूँ पकड़ उस विप्र को, क्या सजा हो ?
'मुक्ति' बोले उससे रतन रावराजा यों ।

नकलगढ़



[राजस्थान]



करूँगा न जल-स्पर्श चित्तौड़ राणा का प्रण ।
'बूंदी दुर्ग पृथ्वी पर रहेगा यावत् क्षण ॥
'कैसी प्रतिज्ञा है यह, मानव असाध्य काज ।
कैसे सिद्ध होगा आज' कहते हैं मंत्रीगण ।
'राणा ने कहा 'असाध्य कार्य तो साधूंगा प्रण ॥'

बूंदी दुर्ग योजन चित्तौड़ से है तीन दूर ।
वहाँ हाड़ावंशी राजपूत सब महाशूर ॥
हामू दुर्गरक्षक हैं जानते नहीं जो भय ।
जिसका प्रमाण सद्य राणा को मिला भरपूर ।
हाड़ावंशी बूंदी दुर्ग योजन है तीन दूर ॥

मंत्री बोले, 'कौशल से, लगा कर सारी रात ।
बूंदी का कृत्रिम दुर्ग गढ़ दो,' होते ही प्रात ॥



आकर स्वयं राणा कर देंगे वृलिसात्,
 नहीं तो क्या बात के लिये करेंगे आत्मघात ।
 मंत्री ने कृत्रिम दुर्ग बना दिया रात-रात ॥

कुंभ एक राणा का था भृत्य हाड़ावंशी वीर ।
 मृगया से लौट रहा कंधे पै धनुष तीर ॥
 बोला, कौन वृंदी का नकल किला नष्ट कर,
 हाड़ावंशी क्षत्रियों का कर देगा नत शिर ।
 नकल किले की लाज रक्खूंगा मैं हाड़ावीर ॥

तोड़ने नकल-किला आये राणा महाराज ।
 'दूर रहो !' कड़के यों कुंभ, ज्यों गिरी हो गाज ॥
 नाम से वृंदी के खेला ! सहूंगा न अवहेला ।
 मिट्टी के किले की लाज, रक्खूंगा दे प्राण आज ।
 गरजे यों कुंभ 'दूर रहो राणा महाराज !'

भू पर जानुपात कर लेकर धनुष शर ।
 कुंभ अकेला ही बचा रहा है वृंदी का गढ़ ॥
 घेर लिया राणा की सेना ने, काट डाला शीश,
 गिरा वीर खेलागढ़ के हैं सिंह द्वार पर ।
 रक्त से है धन्य हुआ वृंदी का नकल गढ़ ॥

विवाह



[राजस्थान]



एक ही पहर रात हुई है व्यतीत अभी ,
मुहुर्मुहु गूँज उठता है मुमधुर शंख ॥

वर-वधू परिणय-वेदी पर चित्रवत् ,
आंचल से बद्ध खड़े हुए हैं नयन नत ।
पीर वनिताएं सब खिड़की के खोल पट ।

घूँघट की आड़ से हैं देख रही निशंक ,
वर्षा की रात्रि में सघन मेघ गर्जना क्रे ।
संग-संग बजता है मांगलिक लगन-शंख ।

थम गई ठिठक ईशान कौण में है हवा ।
मेघाच्छन्न नभ हुआ, छा गई अंधेरी है ॥

सभाकक्ष में सहस्र दीपालोक अपलक ,
मणिमालाओं की है दृगों में मारते झलक ।
कौन सभा बीच तभी आया यह यकायक ॥



TEXT BOOK

द्वार पर तभी वज उठी रण भेरी है ,
 चीक उठे संभासद वर को लिया है घेर ।
 सब ने चकित आंखें उधर ही फेरी हैं ॥

सेहरा लगाए मेड़ता के राजपुत्र से ।
 करता निवेदन है ऐसे मारवाड़ दूत ॥

युद्ध ठना शत्रु से करो न देर एक क्षण ।
 राजा रामसिंहजी भी जा रहे हैं आज रण ॥


उनका यही है आप सबको निमंत्रण ।
 आप भी पधारे सब मेड़तिया राजपूत ॥

जय, जय, जय, राजाराससिंह की हो जय !
 गरज-गरज उठता है मारवाड़ दूत ॥
 जय, जय, जय, राजा रामसिंह की हो जय ।
 मेड़ता-पति ने किया घोष ऊर्ध्व स्वर से ॥

काँप उठी छाती दुलहिन की सिहर कर ,
 छल-छल वह चले दोनों दृग निर्भर ।
 करते निनाद वर यात्री सब समस्वर ॥

जय, जय, जय, राजा रामसिंह की हो जय ,
 मेड़ता कुमार अब अधिक न अवसर ।
 दूत महाराज का यों वोला उच्च स्वर से ॥

व्यथ ही उठी है गूँज उल्लसित हृष ध्वनि ।
 व्यथ गूँज-गूँज उठते हैं माँगलिक शंख ॥



बांधी हुई आंचल की गांठ खोल कर वर
(आँखों ही आँखों में देखा दोनों ने परस्पर)
बोला, 'प्रिये असमय ले रहा हूँ अवसर ॥

मृत्यु का निमंत्रण है दो मुझे विदा अशंक ,
व्यर्थ ही उठी है गूँज उल्लसित हर्ष-ध्वनि ।
व्यर्थ गूँज-गूँज उठते हैं माँगलिक शंख ॥

राजवेश से ही सेहरे को सिर पर धारे ।
घोड़े पर चढ़ चल पड़ा मेड़ता कुमार ॥

लेकर मलिन मुख और नम्र नत शिर ,
नव-वधू अंतःपुरी में गई लौट फिर ।
धीरे-धीरे बुझ गए दीप भी, हुआ तिमिर ॥

राजा की सभा में फँस गया घन अन्धकार ,
कंठ में पड़ी है माला सेहरा है सिर पर ।
घोड़े पर चढ़ चल पड़ा मेड़ता-कुमार ॥

आंचल से अश्रु पोंछती हुई माँ कहती है ।
वधू वेष खोल दे री हाय हतभागिनी ॥

शांत मुख से यों कन्या माँ से लगी कहने ,
पैर पडूँ, दो न निज अश्रु तुम बहने ।
वधू सज्जा मेरी देह पर ही दो रहने ॥

उनकी बतूँगी मेड़ता में अनुगामिनी ,
सुनकर, माथा ठोक, रोती हुई माता बोली ।
'कहती है क्या तू यह हायरी अभागिनी !'



घर के पुरोहित ने भी देकर आशीर्वाद ।
शालि श्रीर दुर्वा से अभिषिक्त किया माथ ॥

चढ़ गई कन्या तब शीघ्र चतुर्दोल पर ,
पुरनारीगण सब रहे हुलूध्वनि कर ।
रंगारंग वेष धर दास-दासी-अनुचर ॥

पंक्तिवद्ध चल पड़े बालिका के साथ-साथ ,
जननी ने आकर हो हर्षित कपोल चूमा ।
पिता ने आकर रक्खा माथे पै वरद हाथ ॥

निशीथ बेला में नभ को भी आलोकित कर ।
कौन आज आया है रे मेड़तापुरी के द्वार ?

वंद करो वाजा कहते ही छाई स्तब्धता-सी ,
शोर हुआ, पालकी को ठहराओ दास-दासी ।
करने को एकत्र हुए हैं मेड़ता-निवासी ॥

मेड़ताधिपति की चिता का साज शृंगार ,
मेड़ता नरेश जब युद्ध-हत हुए आज ,
कौन दुस्समय में है आया नगरी के द्वार ?

बजने दो वाजे, रोको मत, बजने दो वाजे ।
पालकी से भाँक कर कहा नव-वधू ने ॥

लग्न की पवित्र बेला आज नहीं टलेगी ,
आँचल की गाँठ इस वार नहीं खुलेगी ।
संत्र पढ़ो, यह घड़ी फिर नहीं मिलेगी ॥



प्रणय रचेगा इस दीप्त चितानल में ,
बजने दो बाजे, रोको मत, बजने दो बाजे ।
पालकी से झाँक कर कहा नव-वधू ने ॥

मेड़ताधिपति वर-वेश में चिता पर सोए ।
गले में है मोतियों की माला पहने हुए ॥

डोला से उतर तब आयी वह वीर नारी ,
पति के रुधिर रंगे वस्त्र से दी बाँध सारी ।
सिरहाने बैठ गई यह धन्या सुकुमारी ॥

पति का मस्तक निज अंक में लिए हुए ,
मेड़ताधिपति संग सो गई चिता पर ।
निशीथ-रात्रि वेला में मिलन-सज्जा पहने हुए ॥

मुहुर्मुहु गूँज-गूँज उठती है हलूध्वनि ।
उमड़ी आती हैं दल की दल पुरांगना ॥

कहते पुरोहित हैं, धन्य है सुचरिता ,
बंदीजन गाते, धन्य मृत्युजिता अमृता ।
धू-धू कर प्रज्वलित हो उठी तभी चिता ॥

बेठी हुई बाला दीप्त अचला योगासना ,
गूँज-गूँज उठती स्मशान में है जय-ध्वनि ।
हर्षित हो करती हलूध्वनि पुरांगना ॥



सामान्य क्षति



[दिव्यावदानमाला]

•

शीत माघ वातास, प्रवाहित
निर्मल सलिला वरुणा
दूर पुरी से ग्राम विजन में

घाट शिलामय चम्पक वन में
चलीं स्नान की सखियों के संग
काशी महिषी करुणा ॥

है जनहीन घाट यह, पथ यह,
श्राज राज शासन से
त्याग गए जन सरिता तट थे

सूने स्वल्प कुटीर निकट थे
विहगों का गंभीर कल कूजन
उठता है कानन से ॥



उत्तरोल है वायु उत्तरी
उत्तरोल है तटिनी
स्वर्ण ज्योति प्रतिविम्बित निर्मल
पुलकोच्छल जल करता छल-छल
खचित लक्ष्मणि आंचल लहरा
चलती हो ज्यों नटिनी ॥

मृदु रमणी कंठों से लज्जित
आज हुआ कलकाकुल
ललित मृणाल-भुजा-विलास से
प्रमदा तटिनी रसोल्लास से
मधुरालाप-प्रताप-हास से
गगन हो उठा आकुल ॥

जब कर स्नान, कूल पर आई
निकल नारियाँ जल से
महिषी बोली, शीत से मरी
मेरी सकल देह है सिहरी
आग जलाओ अरी सहचरी
जाए शीत अनल से ॥

सखियाँ पर्ण इकठ्ठा करके
चलीं कुसुम कानन में
करतीं सब कौतुक दीवानी
पकड़ टहनियाँ खींचा-तानी
बुला सभी को बोली रानी
दीपित स्मित आनन में ।



हला, इधर आओ, वह देखो
 कुटी अदूर अजानी
 उसी कुटी में दो लगा अनल
 तप्त कहूँगी में कर-पद-तल
 इतना कह उमंग से विह्वल
 हँसी हँस उठी रानी ॥

कहा मालती ने, 'रानी माँ ।
 यह कैसी है क्रीड़ा ।
 इन कुटियाओं का अधिवासी
 होगा कोई यति सन्यासी ॥
 कोई निर्धन दीन प्रवासी
 पायेगा अति पीड़ा ॥'

रानी बोली, 'दूर हटा दो
 इस दयार्द्र-हृदया को
 अति दुर्दम कौतुक-क्रीडा-रत
 निर्मम यौवन-मद में उद्धत
 धनिताओं ने उन्मादिनिवत्
 जला दिया कुटिया कां ॥

लगा धूम घनघोर फैलकर
 धूम-धूमकर उड़ने
 पलक मारते ही हुँकार कर
 प्रबल ज्वाल उल्काओं की खर
 शत-शत दुत जिह्वा प्रसार कर
 लगी गगन से जुड़ने ॥



फोड़ रसातल ज्यों लहराई
अनगिन ज्वाला-नागिनि
नभ की ओर नचाकर निज फन
मत्त हो उठी कर घन गर्जन
प्रलय मत्त रमणी श्रुति में ज्यों
गूंजी दीपक रागिनी ॥

कलरवगान प्रात विहगों का
बना रुदन मय-कातर
करते काक सदल कोलाहल
उत्तर वायु हो उठी चंचल
कुटिया से कुटिया दावानल
लगा फैलने आतुर ॥

चाट गई पल में भोंपड़ियाँ
प्रलय-लोलुपा रसना
निर्जन पथ से माघ प्रात में
मोद-क्लांत शत सखी साथ में
लौटी कुवलय लिए हाथ में
रानी अरुणा वसना ॥

राज सभा में थे विचार मुद्रा में
बैठे भूपति
दल के दल गृह हीन प्रजाजन
हुए उपस्थित, किया निवेदन
सबके सब संकोच त्रास से
थे संभ्रम-संशय-मति ॥



छोड़ सभासन खड़े हुए नृप
 मुख था लाल शरम से
 पहुँचे अन्तःपुर में असमय
 कहा, 'कार्य यह कैसा निर्दय ।
 घर जलवाये दीन प्रजा के
 हैं किस राजघरम से ।'

कहा रूठ कर रानी ने
 'घर किसे बताया जाता ।
 नष्ट हुई कुछ कुटी पुरानी
 नहीं हुआ हत कोई प्राणी
 क्षणिक महिषि-रंजन में
 कितना द्रव्य बहाया जाता ।'

कहा नृपति ने रोक क्रोध को,
 लेकिन क्षुब्ध हृदय है—
 जब तक तुम राजा की रानी
 क्या जानो दीनों की हानी
 निर्दय बन कर समझाना होगा
 यह निःसंशय है ॥'

दासी ने आकर रानी का
 खोल दिया सब गहना
 राजाज्ञा पा, निर्मम होकर
 खोल दिया स्वर्णम पाटाम्बर
 चीर भिक्षुणी का रानी को
 दिया गात में पहना ॥



पथ में छोड़, नृपति बोले,
 अब माँगों दर-दर रानी ।
 कुटी क्षणिक क्रीड़ा से तेरी
 जितनी हुई राख की ढेरी
 तुझको निज श्रम से अब उतनी
 होगी कुटी बनानी ॥

एक वर्ष की अवधि तुम्हें है
 इससे वापस आकर
 सभा मध्य कर प्रणति, खड़ी रह
 सभा समक्ष जनाओगी यह—
 हुई जगत में कितनी क्षति है
 जीएँ कुटीर मिटा कर ॥


पूजारिणी



•
होकर नमित, बुद्ध-पद-नख-कनिका
माँग लाए विम्बिसार
निभृत प्रासाद-वन-मध्य कर प्रस्थापित
उस पर कीशल से यत्न से किए रचित
श्रुति अपरूप मनोहर शिलामयस्तूप
शिल्प के शोभा के सार ॥

संध्या की वेला में शुचि वसन पहन कर
राजवधू राजवाला
लाती थीं सजाकर सुमन गूँथ माल में
स्तूप पद देग में रुचिर स्वर्ण थाल में
अपने सुकोमल करों से जला देती थी
कनक-प्रदीप-माला

फिर जब अभिषिक्त हो गए अजातशत्रु
पिता के आसन पर
घोरिणत के वहा स्त्रोत देकर, प्रजा को कष्ट
निज पितृ-धर्म कर दिया पूर्णतया नष्ट



भस्म कर डाली बौद्ध शास्त्रराशि यज्ञानल
ज्वालाओं में सत्वर

घोषणा अजातशत्रु ने करा दी—
सब पुरनारियां हो विदिता
जगत में वेद विप्र नृपति के अतिरिक्त
कुछ भी नहीं है पूज्य कुछ भी नहीं है इष्ट
जीवन का सार यही, भूलने से इसको
होगी अति विपदा

उस शुभ्र शरद के दिवसावसान में
दासी नाम श्रीमती
पुण्यतोया सलिला में स्नान निमज्जन कर
पुष्पक प्रदीप स्वर्ण-थाल में वहन कर
खड़ी हुई राज-महिषी के पद में नमित
दृगों में ले विनती

सिहर सभय महिषी ने कहा, 'बात यह
याद क्या न मन में
यह अजातशत्रु ने लगा रखी है रटना
जो भी कोई स्तूप में करेगा अर्घ रचना
शूलि पर चढ़ेगा या जीवन बिताएगा
चिर निर्वासन में

लौट कर वहाँ से चली गई चुपचाप
वधू अमिता के घर




रखकर सम्मुख वे स्वच्छ स्वर्ण का मुकुर
वाँवती थीं कोमल करों से साँवल चिकुर
यत्न से रही थीं आँक प्रमोज्ज्वल सिंदूर
शोभित सीमंत पर

श्रीमती को देख बक्र हो गई सीमंत रेख
काँप काँप गए हाथ
बोली, 'निर्वोच किस साहस के बल से
लाई है तू पूजा, री अभी यहां से चल दे
कौन आडे आएगा हमारे ? कह,
होगा जब विपदा का वज्रपात

अस्त रवि-रश्मियों की आभा में गवाक्ष में
नत शिर सन्मुख
बैठी थीं कुमारी शुक्ला मौन और एकाकिनि
ध्यान से रही थीं पढ एक काव्य-आख्यायिनि
चाँक उठी सुनकर किकिरिणी की मंद ध्वनि
हुई द्वार उन्मुख

श्रीमती को देख, द्रुत पद से गई निकट
पुस्तक को छोड़ कर
कहती है सावधान उसके यों कान में
'राजा का आदेश आज किसके न ध्यान में
जाना चाहिए क्या इस भाँति मृत्यु मुख में
बेतहाशा दौड़ कर ।'

द्वार द्वार इसी याचना से फिरी श्रीमती
लिए हुए अर्घ थाली



सबको पुकार कर कहा पुरवासिनी
 आ गई है प्रभु पूजा वेला वरदायिनी
 सुन, घर घर में है कोई भय खाते तो
 कोई उसे देते गाली ।

डूब चलीं शेष रवि-रश्मियां नगर सौघ
 तमावृत हो उठे ।

पथ जनहीन हुआ, तिमिर विलीन हुआ
 सकल त्रमूल कल कोलाहल क्षीण हुआ
 आरती के घंटों से प्राचीन राज देवालय
 मुखरित हो उठे

शरद निशा के स्वच्छ निभृत तिमिर में
 तारे अगणित जले

सिंहद्वार पर वज उठे घोर हैं विपाण
 वंदीगण सम्मिलित छेड़ते हैं सांध्य तान
 'मंत्रणा भवन में सभा हुई है समाधान !'
 द्वारी यों पुकार चले ।

ठीक तभी प्रहरी गणों ने देखा चौंक कर
 हुई हो ज्यों उद्भ्रान्ति


राज उपवन के विजन अंतराल में
 स्तूप-पद-मूल में गहन तम-जाल में
 जल रहे हैं वयों पंक्ति-पंक्ति लघु-लघु दीप
 तारक-माला की भांति



आया पुर-रक्षक तुरंत तभी दौड़ कर
 नंगी तलवार लिये
 पूछा, 'कौन दुर्मति जो प्राण वारती
 मरने के लिए क्यों उतारती है आरती ?'
 'श्रीमती है नाम, दासी बुद्ध की हूँ' शब्द ये
 मधुर सुनाई दिए ।

उस दिन नारी के रुधिर ने पापाण पर
 नया इतिहास लिखा
 उस दिन शरद के निर्मल निशीथ में
 विजन प्रसाद-वन-वीथिका पुनीत में
 बुझ गयी स्तूप-पदमूल में चकित सी
 शेष आरती की शिक्षा ।

प्रतिनिधि



वैठे हुए प्रातः काल
सतारा के दुर्ग भाल
महाराज शिवाजी ने देखा दृश्य एक दिन

पूज्य गुरु रामदास
द्वार-द्वार भिक्षा आश
फिरते थे नगरी में ज्यों बुभुक्षु अन्नहीन ।

सोचा यह कैसा काण्ड
गुरु और भिक्षा-भाण्ड
जो समर्थ, घर में न जिसके है दैन्य लेश

सब जिसके हस्तगत
राजेश्वर पदानत
जग में नहीं क्या उनकी भी वासना का शेष ।

यह तो है अहोरात्र
भरना छिद्रित पात्र
व्यर्थ यह चेष्टा क्या न वृष्णा के शमन की ?



सोचा, यह देखना है
देना और कितना है
भोली भर जाय, इच्छा हो न भिक्षाटन की ।

तत्क्षणा लेखनी ले
लिखा कुछ, कौन जाने
कहा वालाजी को बुला, मंत्रणा सदन में


गुरु लिए भिक्षा आश
आएँ जब दुर्ग पास
पत्र यह रख देना, उनके चरण में ।

गुरु चले गाते हुए
सम्मुख थे जाते हुए
कितने ही पंथी और कितने ही अश्व रथ

हे भवेश, हे शंकर
सभी को दिया है घर
सुभी को दिया है सिर्फ अडिग अनंत पथ ।

अन्नपूर्णा माँ उदार
लिए हुए विश्व भार
उसकी छाया में सुख से है सर्व चराचर

तुमने ही दिगंबर
माँ से मुझे छीनकर
अपनी शरण ले, किया है निज अनुचर ॥



समापन कर गान
कर मध्याह्न-स्नान
आए दुर्गे द्वार गुरु रामदास जिस क्षण

वालाजी ने हो नमित
संभ्रम श्रद्धा जड़ित
पावन पदों में कर दिया पत्र अर्पण

गुरु ने सस्मित हास
उठा लिया अनायास
एक दृष्टि में ही पढ़ गए लिपि पहचानी ,

पद-पद्य में नमित
आज थे समर्पित
स्वयं शिवा, सकल राज्य और राजधानी ।

पत्र पढ़ रामदास
गए शिवाजी के पास
और उनसे यों बोले, 'वत्स, कहो, मैं भी चुनूँ ।'

राज्य यदि मुझे दोगे
फिर तुम क्या चुनोगे
कौन गुरु तुम में हे गुरुरी ! कहो, मैं भी गुरु ।'

भापकी सेवा में प्राण
हर्ष से कहूँगा दान
कह, शिवाजी ने छुआ युगल चरण को



गुरु ने कहा, लो भोली
वन कर हमजोली
चलो नगरी में वत्स, आज भिक्षाटन को

शिवा गुरुजी के साथ
लिए भिक्षा-पात्र हाथ
फिरते मधुकरी की याचना को द्वार-द्वार


नृप को विलोक आगे
वालक घरों में भागे
माता को पिता को बुला लाते खींच वारवार ।

अतुल ऐश्वर्य रत्न
(उनका भिक्षुक व्रत!)
देखो, यह देखो, शिला जल में है तैरती ,

भिक्षा देते लज्जा-भरे
कंपित करों से डर
सोचते हैं, कैसी यह लीला है महत् की ।

दोपहर दुर्ग मांभ
शांत कर कर्म-काज
कर रहे विश्राम सब पुरवासी जन

इकतारे पर तान
छेड़, गुरु गाते गान
आनंद-पुलक-जल-भासित हुए नयन ।



अहे त्रिभुवन पति
जेय न तुम्हारी मति
तुम्हें न अभाव कुछ कैसी फिर याचना ।

करते क्यों जनमन
भिक्षा हेतु विचरण
सभी के सर्वस्व-घन की क्यों वनी चाहना ।

शेष दिवसांत में
नगरी के प्रांत में
सरिता के कूल, संध्या स्नान से ही परिवृत

राँघ कर भिक्षा-ग्रन्न
गुरु ने प्रसन्न मन
खुद पाया, कुछ दिया शिष्य को प्रसादवत् ।

राजा बोले हँसकर-
'राज्यगर्व ध्वंस कर
आपने किया जो मुझे पथ का है भिक्षुक ।

प्रस्तुत है यह दास
और क्या है अभिलाष
तत्पर हूँ गुरु से ग्रहण हेतु गुरु-दुख ।

गुरु बोले, 'तूने, मुन
पाला है कठिन प्रण
अनुरूप लेना होगा तुझे अब गुरु भार



आज्ञा तुम्हें मेरी यह
मेरे नाम, मेरा रह
राज्य अंगीकार करो वत्स अब पुनर्वार ।

तुम्हें बना चुका विधि
भिक्षुक का प्रतिनिधि
राजेश्वर होंगे तुम, किन्तु दीन उदासीन ।


पालो वत्स, राजघर्म
जानकर मेरा कर्म
राज्य को चलाओ किन्तु रहो जैसे राज्यहीन ।

वत्स तव लेओ यह
मेरे आशीर्वाद सह
मेरे पास मात्र यह भगवा जो गात्र वास ,

वैरागी का उत्तरीय
तेरा ध्वज वन्दनीय'
बोले शिवाजी से यों समर्थ गुरु रामदास ,

नृप शिष्य नत शिर
बैठा रहा नदी तीर
धा प्रशस्त भाल आज राशिराशि चिंताग्रस्त ,

थमा चुके ग्वाल वेगु
गोठ ओर चलीं घेनु
दूर प्रतीची में दिवानाथ हो रहे थे अस्त ,



पूरवी की छेड़ तान
तन्मय रच गान
एक मन एक प्राण गाने लगे रामदास ।

देकर मुझे यों राज
पहना नृपति साज
कौन तुम, करते जो मेरे अन्तराल वास ?

त्रिभुवन पति, प्रभो !
पादुका तुम्हारी ही तो
रक्खी मैंने, मैं तो रहता हूँ पादपीठ तले ।

संध्या अब आई भुक
बैठा रहूँ कब तक ?
निज राज्य में त्वरित तुम अब आओ चले ।

नगर लक्ष्मी




[कल्पद्रुमावदान]

•

दुर्भिक्ष त्रस्त था श्रावन्तीपुर जब
गूँज उठा दसों दिशाओं में हाहारव
प्रश्न किया बुद्ध ने यों निज भक्तगण से
फिर तथागत ने पुछाया जन-जन से
'क्षुधित को कौन आज देगा अन्नदान
सेवा-व्रत यह कौन लेगा पुण्य प्राण ।'

सेठ रत्नाकर ने सुन तत्काल
कर लिया लज्जा से नमित निज भाल
कहा मंद स्वर में यों फिर बद्धकर
आज है क्षुधार्त्त देव सारा ही नगर
शमित करूँ मैं क्षुधा इसकी विषम
स्वामिन्, नहीं मैं इस कार्य में सक्षम ।'

वोले तब विश्रुत सामन्त जयसेन
जो भी है आदेश अस्वीकार है मुझे न
ले लेता सहर्ष उसे निज शीश पर
होता मैं प्रसन्न यदि वक्ष चीरकर



रक्त देने से भी होता सिद्ध कोई काज
किन्तु मेरे घर में कहां है अन्न आज ।

निःश्वास लेकर यों बोलै धर्मपाल
में क्या कहूँ ऐसा ही है मेरा दग्ध भाल
सोना जो उगलता था मेरा प्यारा खेत
चूस रहे आज उसी को अज्ञात प्रेत
राजकर देना ही है हो रहा कठिन
हुआ दीन हीन आज मेरे ऐसे दिन ।

एक दूसरे का मुख जोह रहे सब
उत्तर में कहने को पास भी क्या अब ।
निर्वाक् संत्रस्त उस सभाघर में
क्षुधा से व्यथित उन व्याकुल नगर में
मात्र दो करुण आँखें तथागत बुद्ध की
संध्या-तारा सदृश प्रदीप्त थीं, प्रबुद्ध थीं ।

धीरे-धीरे तभी उठ खड़ी हुई फिर
तप से आरक्त भाल लज्जानत शिर
एक भिक्षुणी अनाथपिंडक सुता
वेदना-विवर्ण अश्रुसीकरप्लुता
बोल उठी बुद्ध-पद-रेणु स्पर्श कर
मधुरिम कंठ में विनम्र भावभर ।

‘स्वामी ! यह भिक्षुणी अधम सुप्रिया
इसीने आदेश भार वहन किया
क्रन्दन जो करते हैं सर्वहारा जन
प्रिय हैं मुझे ज्यों हो ये मेरे ही सुमन



अन्न वितरण को न कोई भी तैयार
लेती हूँ मैं शीश पर आज से ही भार ।’

विस्मय मान, वात सवने सुनी
भिक्षु-कन्या, तुम तो हो मात्र भिक्षुणी
उकसा रहा है तुम्हें कौन अहंकार
जो कि लिया तुमने है यह गुरु भार
कैसे कर पाओगी कठिन यह काज
भिक्षुणी है, पास क्या तुम्हारे कहो आज

कहा यों उन्होंने कर सबको नमन
‘मात्र यह भिक्षा पात्र ही है मेरा धन
मैं तो एक दीनहीन कन्या मात्र हूँ
सर्वाधिक दान की दया की पात्र हूँ
पाऊँगी सभी की दया करुणा का लेश
होगा यों जयी अवश्य प्रभु का आदेश ।

है मेरा भंडार सदा अक्षर, अजर
रक्खा वह आप सबके ही घर-घर
आप सब चाहेंगे तो होगी धर्म-जय
भिक्षा-पात्र से ही होगा एक भी न क्षय
भिक्षा-अन्न से ही वचाऊँगी वसुधा
मिटाऊँगी भीषण दुर्भिक्ष की क्षुधा ।



स्पर्शमणि



[भक्तमाल]

•

नदी तीर वृन्दावन, सनातन एक मन
जपते थे हरिनाम
होकर चरण लीन उस काल वेश दीन
विप्र ने किया प्रणाम

पूछते हैं सनातन, 'कहाँ से है आगमन
क्या है नाम ठाञ्कुर ।'
क्या कहूँ मैं अकिंचन, पाया भवदर्शन
धूम कर अति दूर

जीवन है मेरा नाम, मानसर में है धाम
जिला वर्दमान में
ऐसा हूँ मैं भाग्य हत, दीन हीन ममवत्
है न किसी स्थान में ।

थोड़ी सी है जमीं जमां, जी लेता हूँ शीश भुका
पा लेता हूँ अल्प-स्वल्प
क्रिया-कर्म यत्नरीत अतिख्याति थी अतीत
किन्तु सब आज गल्प ।



निज अभ्युत्थान हेतु प्राप्ति वरदान हेतु

की थी शिवाराधना

एक दिन, रात शेष, स्वप्न में हुआ आदेश

पूर्ण होगी प्रार्थना ।

जाओ जमुना के तीर, गोस्वामी के हो अघोर

पकड़ लो दोनों पाँय

उन्हीं को जनक जानो, पास है उन्हीं के मानो

रिद्धि-सिद्धि का उपाय ।

सुन क्या सनातन होगए आतुर मन

आज क्या हमारा है

जो भी कुछ था सकल त्याग आया हूँ मैं चल

भिक्षा ही सहारा है ।

तभी विस्मरण टूटा, साधु यों पुकार उठा

ठीक तुमने कहा

एक दिन नदी तट, मिला मुझे रेणु पर

पारस माणिक्य था ।

सोच कभी आए योग, दान में ही उपयोग

दात्र दिया वालुका में

उठा ले जाओ ठाकूर, दुःख हो तुम्हारा दूर

उसके छूते न छूते ।

शोध्र विप्र ने आकर, खोदा वालुका-निकर

पारस माणिक्य पाया

लोहे के दो मंत्र-पट, सोने के हो उठे भद्र

जैसे ही उसे छुआया ।



विप्र तब रेत पर, विस्मय से, बैठकर
 करने लगा मृनः ।
 यमुना कल्लोल गान, चिंतितै के कान कान
 करती है क्या कथन ।

नदी पार रक्त छवि दिवसांत कलांत रवि
 हुआ अस्ताचल गत
 तब विप्र उठकर साधु पद लेट कर,
 बोला अश्रु गद्गद ।

जिस धन से हो धनी, मरिण को न गिना मरिण
 मैं उसी की करिण को
 माँगता हूँ नत शीश, कह यों नदी के बीच ,
 फेंक दिया मरिण को ।




दीन दान



किया निवेदन राज-भृत्य ने महाराज से सविनय नहीं आपके स्वर्णिम देवालय में लेकर आश्रय साधु शिरोमणि भक्त नरोत्तम आज लगाकर आसन पथ के अंचल तरु छाया तल करते हैं संकीर्तन श्रद्धा-भक्ति-विभोर भक्तगण घेर उन्हें दल के दल उद्वेलित आनंद अश्रु से धोते हैं धरणी-तल ।

घून्यप्राय देवांगन, ज्यों तजकर स्वर्णिम मधु-भाजन कमल गंधमाती भृंगावलि कर द्रुत पंख प्रसारण उड़ी चली जाती गुंजित उन्मीलित पद्मविपिन में, त्यों नर-नारी ललक-पुलक ले अमित नयन में मन में डाल उपेक्षा-दृष्टि स्वर्ण-मंदिर पर दीड़े आते ठीक वहाँ उस पंथ किनारे जहाँ कि वे हैं पाते— एक भक्त का पूर्ण प्रफुल्लित सुरभित हृदय कमल है वितरित करता यहाँ मर्त्य में स्वर्ग-सुरभि निर्मल है एकाकी देवता रत्नवेदी पर देवालय में ।’

यह सुनते ही राजा के भर आया क्षोभ हृदय में सिंहासन से उठकर वह चल दिया जहाँ तरु-तल में थे चूणासनासीन साधु, कर विनती चरण युगल में



कहा उन्हें, 'दृष्टव्य नृपति निर्मित यह नव्य-निकेतन स्वर्णशीर्ष यह, यह नभस्पर्शी क्यों कर इसका वर्जन करते हो स्तवगान देवता का पथ में निर्जन में ?' कहा साधु ने, 'नहीं देवता है उस स्वर्ण-सदन में' बोल उठा राजा सरोप, 'क्या कहते हो संन्यासी वात नास्तिकवत करते क्यों होकर प्रभु-विश्वासी ? क्या वह मंदिर शून्य, वहाँ पर नहीं देवता स्थित है ?


अरे वहाँ मणि-मूर्ति रत्न-सिंहासन पर दीपित है ।' कहा साधु ने, 'शून्य नहीं वह, राज्य दंभ से पूरित नहीं जगत्पति को, तुमने है किया स्वयं को स्थापित ।' भ्रूकुंचित कर बोले राजा, 'बीस लाख मुद्रा से निर्मित किया अर्निदित मंदिर अंवर-भेदी हमने पूजा मंत्रों से अर्पित कर किया ईश को दान तुम कहते हो उस मंदिर में नहीं कहीं भगवान ।' शांत वदन यों कहा साधु ने, 'वह्नि-दाह से दीन बीस सहस्र प्रजा जिस वत्सर अन्न-वस्त्र गृह-हीन द्वार तुम्हारे से लौटी ले असफल करण पुकार हो निरुपाय कराल अवधि वह काटी किसी प्रकार गुहागर्भ में पथ प्रांतर में तरु तल में या वन में या अश्वत्थ विदीर्ण जीर्ण जर्जर मंदिर-प्रांगण में । बीस लाख स्वर्णम मुद्राएँ दीन प्रजा को देकर स्वर्ण दीप्त मंदिर तुमने यह उसी वर्ष वनवा कर था देवार्पित किया, उसी दिन बोले यों भगवान है मेरे अनादि घर में अगणित प्रकाश द्युतिमान इस अनंत नीलाभ भवन की है हर भित्ति चिरंतन



सत्य शांति औ दया प्रेम जो स्वार्थी क्षुद्र कृपण जन
जिनसे आश्रय पान सके उनके गृहहीन प्रजागरण
वे करते गृह दान मुझे, कह प्रभु चल पड़े उसी क्षण
पंथ प्रांत में तरु तल में वे दीन-संग दीनाश्रय
गहन सिंधु में स्फीत फेन ज्यों सारशून्य और मृण्मय
वैसे ही तत्र परम शून्य यह मंदिर है भूतल पर
स्वर्णदर्प बुदबुद ।'

राजा जल उठे रोप से सत्वर,

कहा, 'भंड, पामर, वंचक, तुम राज्य हमारा तजकर
चल दो इसी मुहूर्त,' साधु तब बोले शांत मधुर स्वर
'भेजा जहाँ भक्त-वत्सल को उस निर्धन के घन को
उसी स्थान में कर दो निर्वासित प्रभु के इस
जन को ।




पुरातन भूतय

ओहो ! चेहरा है कैसा ! भूत और प्रेत जैसा ।
 निर्बोध अति घोर ।
 चाहे कुछ भी खो जाय, गृहिणी की यही राय
 केष्टा बेटा ही चोर ।
 उठते क्या, बैठते क्या, उसे कोसता हूँ सदा
 किन्तु ज्यों अनसुना
 जितना पाता है बेंत, उतना नहीं वेतन
 तब भी न चेतना
 बहुत प्रयोजन, पुकारता हूँ प्राणपण
 चीत्कार करता हूँ केष्टा
 कहे कितनी भी त्वरा, किन्तु सुनता न मरा
 छान मारता हूँ सारा देष्टा
 देता हूँ जो एक चीज इतनी उसे तमीज
 पल में बनाता तीन
 तीन देता हूँ तो शेष, रहती है सिर्फ एक
 शेष हो जाती विलीन




निद्रा में है ऐसा सधा, जहाँ तहाँ मिले सोता
 दिन दोपहर सदा
 गालियों की मैं वीछार, छोड़ता हूँ बार-बार
 पाजी, हतभाग्य गधा ।
 तब खड़ा द्वार पास, करता है मंद-हास
 जल उठता है पित्त
 तो भी उसका प्रसार ! त्यागना उसे दुभार
 बड़ा पुरातन भृत्य
 कहती है घर की कर्तुँ लिए हुए रक्ष मूर्ति
 रक्खो यह घर बार
 केष्टा को लेकर संग रहो अति सानंद
 मान ली मैंने ही हार
 मानता नहीं शासन, जितना बसन बासन
 असन-आसन सब
 क्या पता कहाँ क्या रहा पैसा जा रहा है बहा
 बिगड़ गया है ढब
 जाता जब है बजार, सारा दिन होता पार
 देखना भी दुष्कृत्य
 करो यदि चेष्टा तो, छोड़ इस केष्टा को
 क्या न और मिले भृत्य
 सुन उठा उद्वेग, चला क्रुद्ध मैं सवेग
 चोटी खींच उसे लाया
 कहता हूँ उसे, पाजी ! मानेगा न राजी राजी
 आज से तुम्हें हटाया



धीरे से जाता है चला, सोचता हूँ, टली बला
 किन्तु अगले ही दिन
 हुक्का हाथ में बढ़ाये, खड़ा हुआ मुँह बाए
 अक्कल का दुश्मन
 है अति प्रसन्न मुख, नहीं उसे कोई दुख
 अति अकातर-चित्त
 छुड़ाने पै भी न छोड़े, कोई फिर हाथ जोड़े ?
 वाह पुरातन भृत्य !
 उस वर्ष अनायास, हुआ कुछ पैसा पास
 किया कुछ था व्यापार
 हुआ तब यह मन, पुण्य-धाम वृन्दावन
 चला जाय एक बार
 था कुटुम्ब भी तो पर, चलने को तत्पर
 समझाया सानुनय
 जो भी है पति का पुण्य, वही है सती का पुण्य
 व्यर्थ क्यों बढ़ाएँ व्यय !
 किन्तु बँटुरस्सारस्सी और कर कस्साकसी
 बाँध बोरिया-बसन
 कड़े चूड़ी बजाकर, बक्स-पेटी सजाकर
 पत्नी ने किया रुदन
 परदेश में जाकर, केषटा को ले जाकर
 कष्ट अति होगा नाथ
 मैंने कहा, राम राम, ऐसा भी क्या कुहराम
 निवारण तो है साथ



छक-छक दौड़ी रेल, उनरा में देखा खेल
 आया जब वर्दमान
 आ रहे थे दृष्ट्यकांत आनन अति प्रशांत
 लेकर तमाखू पान
 स्वर्णिये अनुचित उसकी यों अगणित
 कितनी सही हैं नित्य
 कितना भी देऊँ दोष, फिर भी न आता रोष
 देख पुरातन भृत्य ।
 आया जब श्रीवाम, दक्षिण में और वाम
 आगे पीछे चारों ओर
 पंडों ने लिया जो ढेर, देहका हुआ जो ढेर
 प्राण डाले नरकभोर
 मिने हम पाँच सात, लिया गृह एक नाय
 बन्धु भाव असलित
 किया यों वहाँ निवास, मन में देवी यों आस
 चैन से कटेंगे दिन
 किन्तु कहाँ ब्रजवाला, कहाँ हाथ बनमाला
 कहाँ बनमाली कंत
 आज हंत, हा अनंत, कहाँ वह है वसंत
 हुआ हमें ही वसंत
 बन्धु जो भी थे यादतू, सारे ही वे स्वप्नवत्
 छोड़ चले मेरा संग
 मैं अकेला, मृता, वर, खर-तर व्याधि-सर
 दिवा हुआ सारा अंग



निशिदिन दीन हीन, मैं पुकारता हूँ क्षीण
केष्टा आ जा रे पास

दिन कुछ ही है शेष, यहाँ इस दूर देश
कहाँ बचने की आश ?

मुख उसका विलोक, और जाग उठा शोक
ज्यों हो वह मेरा वित्त

निशिदिन दत्तचित्त, रहता सिरहाने स्थित
मेरा पुरातन भृत्य

सुख में देता है जल, फिर पूछता कुशल
बैठ सिरहाने पास

जागता है अपलक, बाती भी नहीं भपक
मुख में नहीं है ग्रास

कहता है बारबार, शीघ्र होगा उपचार
स्वामी नहीं करे भय

देश लौटोगे अचिर, ठकुरानी माँ को फिर
देखोगे, है निश्चय

कर मैं आरोग्य लाभ, खड़ा हुआ शय्या त्याग
हुआ वह ज्वराक्रांत

ओट कर मेरा काल, हुआ अन्त हा-कपाल !
स्वयं वह व्याधि-क्लांत

हुए उसे संज्ञाहीन, बीत गए दिन तीन
बंद हुई नाड़ी आज



त्यागने चला था जिसे, कितनी ही बार अरे
वही आज गया त्याग

बहुत दिनों के बाद, हृदय में ले विषाद
लौटा घर, कर तीर्थ

किन्तु आज साथ नहीं, हाय चिरसाथी वही
मेरा पुरातन भृत्य ।

मूल्य-प्राप्ति



अगहन की शिशिर शीर्षा रात
सह निष्ठुर शीत के आघात
मुरझा गए हैं सारे पद्म वृन्द ।
ऐसे में सुदास माली घर में
कानन में स्थित सरोवर में
जाने कैसे फूटा पद्म है अमंद ।

विक्रय के हेतु उसे तोड़कर
गया वह प्रासाद-के द्वार पर
याचना की मिले नृप-दर्शन ।

इसी काल, देख पद्म उत्फुल्ल
विस्मय विमुग्ध और हर्षाकुल
बोला यों माली से एक पांथ जन ।

‘यह जो खिला है पद्म असमय
करना इसे मैं चाहता हूँ क्रय
मूल्य कितना होगा तुम्हें स्वीकार ?




पूज्यपाद बुद्ध भगवान आज
भाग्य से हमारे आए पुर माँझ
उनके पदों में दूंगा उपहार' ।

माली ने कहा यों 'स्वर्ण एक माशा
पाऊँगा मैं मूल्य, यही मुझे आशा,
पथिक देने को हुआ तत्पर ।

अति समारोह साथ इसी काल
लिए हुए बहुपूजा अर्घ थाँल
नृपति अचानक आए बाहर ।

महाराज राजेन्द्र प्रसेनजित
गाते हुए मंगल मधुर गीत
जा रहे थे बुद्ध दर्शन हेतु,
देखा जो उन्होंने असमय फूल
पूछ ही तो बैठे 'कितना है मूल्य
लेना प्रभु-पद अर्पण-हेतु ।

माली ने कहा विनीत, 'हे राजन्
अभी अभी एक स्वर्ण माशा परण
इसका लगा चुके थे महाशय,'
'चिन्ता नहीं, दस माशा देंगे हम'
'बीस माशा' पांथ भी नहीं था कम
करना दोनों ही चाहते थे क्रय ।



‘मैं ही लूंगा, दोनों यही ठानते
 दोनों ही नहीं हैं हार मानते
 मूल्य चढ़ता ही गया पल-पल,
 माली के यों भाव हुआ हृद्गत्
 दोनों जिसके लिए विवाद-रत
 मैं ही उसे दूँ तो मिले क्या ही फल ।

बोला वह जोड़कर दोनों कर
 क्षमा करें आप मुझे दया कर
 इसको न मेरा बेचने का मन ।

और वह दौड़ गया तत्क्षणा
 बुद्ध जहाँ बैठे थे प्रसन्न मन
 उद्भासित था सकल उपवन ।

बैठे थे लगाए हुए पद्मासन
 विकसित आनन प्रशांत मन
 निर्विकार सच्चिद् आनंद मूर्ति ।
 दृष्टि से थी भरती अमल शांति
 स्फुरित अधर पर दीप्त कांति
 करुणा की सुधास्निग्ध हास्य-ज्योति ।

देखते ही हो गया सुदास स्तब्ध
 दृग्विस्फुरित, अपलक मुग्ध,
 मुख से न बोल कुछ निकले,



गिर पड़ा सहसा भूतल, पर
पकड़ करों में पद्म दृढ़ कर
पूज्य पाद प्रभु के चरण में ।

अमृत की राशि बरसाते हुए
बुद्ध ने यों पूछा मुसकाते हुए
'कहो वत्स, क्या तुम्हारा प्रयोजन?'

व्याकुल सुदास ने कहा यही
'प्रभु चाह और कुछ भी नहीं
पाऊँ एक पद-पद्म-रजकण' ॥ ।



द्वे दिन



काश, कि जो मैं जन्मा होता कालिदास के काल में
हो जाता हैवात् दशम् मणि नव रत्नों की माल में ।

स्तुति का एक श्लोक गा देता
नृप से प्रतिफल मैं पा लेता
उज्जयिनी के विजन प्रान्त में
एक सदन उपवन परिवेष्ठित
रेवा के तट, चम्पा के तल
जुड़ती रसिक सभा संध्याञ्चल
क्रीडागिरि पर मुक्तकंठ से
तान छेड़ता मैं श्राह्लादित ।

जीवन तरी बही जाती यों मंदाक्रांता ताल में
काश, कि जो मैं जन्मा होता कालिदास के काल में ।

चिंता को देता जलाञ्जली
होती कोई भी न त्वरा
मृदु पद से चलता यह जीवन
ज्योंकि नहीं हो मृत्युजरा




षट ऋतु में सम्पूरित होकर
मिलन घटित होता स्तर स्तर पर
छः सर्गों में जीवन क्रम की
होती ग्रथित अपूर्व छटा
विरह वेदना की तलशायिनि
तप्त अनस्त्र अश्रुमंदाकिनी
मंद-मंद संचारित होती
रचती कोमल करुण कथा

हो आषाढी मेघ संतरित मंथर-मंथर अलस भरा
मृदु पद से चलता यह जीवन ज्योंकि तनिक भी हो न त्वरा।

खिल-खिल उठता वकुल
प्रिया के मुख-मदिरा उन्माद से
पदाघात रोमांच जगा देता
अशोक के गात में
प्रिय सखियों के मधुर नाम सब
करते ललित छंद पूरित रव
ज्यों रेवा के कलित कूल में
कल हंसों की कल ध्वनियां
कोई नाम लता, मधूलिका
कोई ललिता, आम्रपालिका
अंजलि, मंजुलिका, मंजरिणी
देते कितनी भक्तियां ।

सभी कुंजवन में आ जातीं चैत चाँदनी रात में
पदाघात रोमांच जगा देता अशोक के गात में ।



धारण कर कुरुवक का चूड़ा
 श्यामल चिक्कण केश में
 लीला-कमल न जाने क्यों
 ले कोमल करतल देश में
 अलक सजातीं कुंद फूल से
 शिरिष भूलते कर्णमूल से
 कनक मेखला में लटकातीं
 नवनीपों की मालाएँ
 तन को धारा-यंत्र-स्नान दे
 अलक जाल में धूप धूम खे
 लोध्र फूल की शुभ्र रेणु को
 मलतीं मुख पर वालाएँ

कालागुरु गुरुगंध रमी रहती वासक परिवेश में
 शोभित होती कुरुवक माला श्यामल चिक्कण केश में ।

कुंकुम की पत्रक-रचना से
 रहता उन्नत वक्ष ढँका
 अंचल के प्रांतर में रहता
 हंस-मिश्रुन का चित्र टँका
 विरहातुर आषाढ़ मास में
 बाट जोहती कंत आश में
 एक-एक पूजा प्रसून रख
 दिवस काटतीं गिन-गिन कर
 सटा वक्ष से निज प्रिय वीणा
 गान छेड़तीं, गा पाती ना
 रुक्ष अलक, मुख म्लान हगों से
 आँसू भरते भर-भर-भर




मिलन निशा में बज-बज उठता पद में जोड़ा नूपुर का
कुंकुम की पत्रक-रचना से रहता उन्नत वक्ष ढँका

अपनी पट्टसारिका को वे
प्रिय का नाम पढ़ा देतीं
पट्टता से, कंकण भङ्कत कर
वन्य मयूर नचा देती
ले कपोत को कर में सुख से
सहलातीं मुख को निज मुख से
चुगा सारसी को देतीं वे
कुडमल कोरक ला लाकर
वेणी को आंदोलित करतीं
बात शीरसेनी में करतीं
लिपट गले से, 'हला पियो तो !'
कहती कसमें खा-खा कर

तरुण आम्र के आल बाल में दल की दल पानी देतीं
अपनी पट्ट सारिका को वे प्रिय का नाम पढ़ा देतीं

मैं भी उस नवरत्न सभा में
एक ओर बैठा रहता
दिङ्नाग को देख, दूर से
श्रद्धापूर्ण नमन करता
मेरा नाम मुझे है आशा
होता वैसा ही अच्छा-सा
विश्वसेन या देवदत्त
वसुभूति, कि ऐसा ही कोई



छंद स्रग्धरा या मालिनि में
बना प्रिया की नख-शिख स्तुति में
रच देता दो चार पोथियाँ
मैं भी तो छोटी मोटी

शीघ्र श्लोक-रचना समाप्त कर गृह की ओर गमन करता
मैं भी उस नवरत्न सभा में एक ओर बैठा रहता
काश कि जो मैं जन्मा होता कालिदास के स्वर्ण काल में
बँध जाता मैं न जाने किस मालविका के रूप जाल में

किसी मदन उल्लासोत्सव में
वेणु मुरज वीणा कलरव में
गंध अंध मंजरित कुंज वन
के अति गोपन अंतराल में
किसी फाल्गुनी शुक्ल निशा में
यौवन की उद्दाम दशा में
किसी सुन्दरी से हो जाती
भेंट नृपति की चित्रशाल में

रुक जाती वह छल से आंचल अटका कर सहकार डाल में
काश कि जो मैं जन्मा होता कालिदास के स्वर्ण काल में

हाय कहाँ है भोले कवि, अब
कालिदास का काल रे
पंडितजन करते विवाद हैं
लेकर तिथि, मिति, साल रे
बीत गया वह सकल अब्द है
इतिवृत्त हो गया स्तब्ध है




जो भी गया, उसे जाने दो
 मिथ्या है यह कोलाहल
 किन्तु उसी के साथ गई, हा,
 उस दिन की वे पौर नारियाँ
 कहीं चतुरिका मालविका का
 और निपुणिका का वह दल

कौन स्वर्ग ले गया मर्त्य से वरमाला का थाल रे ?
 हाय, कहीं है, भोले कवि, अब कालिदास का काल रे ?

जिनके साथ न हुआ मिलन भी
 वे पृथ्वी की सुरांगना
 चिर विच्छेद व्यथा से मुझको
 बना रही हैं अन्यमना
 तब भी मन में यह प्रबोध है
 वैसा ही वकुल प्रमोद है
 यद्यपि उसे नहीं मिल पाता
 नारी मुख-मद का छोटा
 फागुन में अशोक छाया में
 अलस प्राण, सालस काया में
 अब भी है वातास दक्षिणी
 लगता वैसा ही मीठा

मिलती है सांत्वना विविध विधि, होता हूँ मैं शांत मना ।
 यद्यपि अब इस मर्त्यलोक में रही नहीं वे सुरांगना

पर इस क्षण जो वर्तमान हैं
 इसी मर्त्य नरलोक में



अच्छी लगती इनकी छवि यदि
 कवि गुरु इन्हें विलोकते
 सभी वूँट मोजे है पहने
 श्रीर चाल के तो क्या कहने
 रंग ढंग हैं सभी विदेशी
 वातचीत में चाल में
 किन्तु वही अब भी कटाक्ष है
 नयन कोण दे रहा साक्ष्य है
 जो कटाक्ष देखा जाता था
 कालिदास के काल में

में न मरूँगा अरे निपुणिका-मालविका के शोक में
 अन्य नाम से वर्तमान वे सभी इसी भू लोक में ।

अतः घूमता इसी गर्व से मत्त
 हर्ष उन्माद में

में जीवित सशरीर, शेष है

कालिदास तो याद में

उनके युग का स्वाद गंध सब

मिलता मुझको मुदुल मंद अब

पर न महाकवि को मिल पाया

इस युग का किंचित कण भी

वेणी लहरा, डाल मोहिनी

चलतीं आघुनिका विनोदिनी

कर सकते थे कहाँ महाकवि

इनका कल्पित चिंतन भी

प्रिये तुम्हारी प्रणय दृष्टि का पाकर तरुण प्रसाद मैं ।


कालिदास को हरा, गर्व से फिरता हूँ उन्माद में ॥

बन्दी तीर



●

पंचनद तीर
वेणी का जूट वाँध
पल में गुरु-मंत्र से
जाग उठे सिक्ख
निर्मम निर्भीक ।
हो उठा प्रतिध्वनित
जल-थल में चतुर्दिक
सहस्रों कंठों से
'गुरुजी की जय'
जाग उठे सोए सिक्ख ।
जागृति की वेला में
नवोदित सूर्य को
देखा अनिमेष ।
'अलख निरंजन'
टूट गए बंधन
जय के निर्घोष का
नभ व्यापी कम्पन
करता भय भंजन ।




वक्ष पास, सोल्लास
 बजती असि भन-भन ।
 आसमान लरज उठा ।
 पंचनद गरज उठा
 'अलख निरंजन'
 फिर वह भी आया दिन
 पांच नदियों के पुण्य-
 पावन दस तीरों पर
 घिर-घिर कर जुड़ आए
 निर्द्वन्द्व मुक्त उच्छ्रय
 लक्ष प्राण शंकाहीन
 चित्त भावना विहीन
 था जिनके जीवन का
 एक ध्येय एक सत्य
 'जीवन क्या, मृत्यु क्या
 दोनों ही मनुज मृत्यु'
 उधर, दूर दिल्ली के
 महलों में हरमों में
 बारबार बादशाहजादों
 की मीठी नींद
 उचट-उचट जाती थी ।
 किनके उदग्र कंठ
 अपने जय-घोष से
 तोड़ कर नीरवता
 निविड़ निशीथ की
 करते नभ मंथन हैं ।




किनके प्रोज्वल मशाल
करते हैं दीप्त
बह्नि किरणों से अभ्र-भाल ।

पंचनद तीर पर
मुक्त हुई है क्या
गुरु-भक्तों की रक्त लहर ।
लक्ष-लक्ष वक्ष चीर
दल के दल प्राण आज
विहग तुल्य हो अधीर
छूट चले व्याकुल हो
जैसे निज नीडों को ।
जननी के भाल पर
हर्षित हो रक्त-तिलक
किया वहाँ वीरों ने
पंचनद तीर पर ।
मुगलों के, सिक्खों के
इस दुरंत रण में
मरणालिगन में
गुंथ गए ताल ठोक
परस्पर दोनों पक्ष
दंशन-क्षत श्येन-विहग
प्लूभ रहा जैसे हो
भारी भुजंग से ।
उस दिन समर में
'जय, गुरुजी की जय'




हुंकारे सिक्ख वीर
मत्त मुगल रक्त वृषित
दीन, हीन गरजे ।

गुरूदासपुर गढ़ में
तूरानी सेना के हाथों
प्रभु का प्यारा
वंदा जब वंदी हुआ
सिंहवत शृंखलागत
वाँधकर ले जाया गया
नगर दिल्ली में ।
आगे चला मुगल सैन्य
भालों की नोंकों में—
छिन्न सिक्ख मुंड टाँक
पथ में उड़ाता घूल ।
पीछे चले आते थे
सिक्ख सात सौ, जिनकी
खन् खन् खन् बज
उठती थीं लोह-जंजीरें ।
राज-पथ पर धा समाता नहीं
जन-समूह ।
खुल गए झरोखे थे—
गरजे सिख, 'गुरु की जय'
प्राणों का भय भूल ।
मुगलों का, सिक्खों का
दोनों का सैन्य-दल
चला आज दिल्ली के



पथ में उड़ाता घूल ।
 होड़-सी मची थी
 कौन करे प्रथम प्राणदान ।
 बलि के लिए मची थी
 आपस में खींचतान ।
 प्रति दिवस प्रातःकाल
 'जय, गुरुजी की जय'
 पुकार कर शत-वीर
 बधिक-जनों के हाथों
 पंक्ति-बद्ध क्रम-क्रम से
 करते थे शीर्ष दान ।
 इसी भाँति सप्ताहांत
 सप्तशत प्राणों के
 निःशेष होने पर
 बंदा की गोद में
 काजी ने रख दिया
 बंदा का एक लाल
 और कहा, 'तुमको वध
 इसका करना होगा
 अपने ही हाथों, बिना
 सहमे वा भिक्के ।'
 कह कर यों पटक दिया
 उस नीनिहाल को
 माई के लाल को
 जो था शृंखलाबद्ध—
 बन्दा की गोद में ।



दुःख न कहा दुःख है,
 बंदा नै धीरे है
 नहीं है लाल को
 लग लिया वज्र है ।
 क्षण भर, फिर, मस्तक पर
 रखता निज दक्षिण कर
 सिर्फ एक बार हुना
 उठके उभरीसि जो ।
 शौर फिर धीरे है
 लेकर कठोर स्वरित
 अपने कटि बंध है
 बालक का दुःख निहार
 कहे बस यही शब्द
 चुपके से राज नै
 'लय, गुरुजी की लय,
 नहीं पुत्र कोई नय'
 उच किशोर आनन पर
 पल भर को दीप्त हुई
 समय किरण सौत्साह
 काँध उठा समाजल
 कोमल, पर, श्रोत्रस्वी
 उच किशोर-जंठ है
 बंदा का दुःख निहार
 बालक उठा हुकार
 'गृह जो जो लय !
 नहीं दुःख नय !'



वंदा ने तब निज
 वाम बाहुपाश पर
 उसको लिटा लिया
 दक्षिण भुजा में फिर
 लेकर कटार उसे
 भोंक दिया जोरों से
 बालक के वक्ष में ।
 'गुरु जी की जय' कह लाल
 लोट गया धरती पर ।
 सभा हुई निस्तब्ध ।
 वंदा की देह खंड-खंड
 कर डाली गई
 संबासी करके दग्ध ।
 लेकिन उस वीर ने
 (धन्य उस वीर को !)
 रह कर स्थिर और अचल
 प्राण निज त्याग दिए
 हर्षित हो । किन्तु नहीं
 कहा एक दीन शब्द ।
 दर्शक जन मुदित-नयन,
 सभा हुई निस्तब्ध



श्रेष्ठ भिक्षा

[अवदान शतक] }

भिक्षा प्रभु बुद्ध हेतु शिष्य आज मांग रहा
 कौन पुरवासी, इस वेला, है जाग रहा
 यों अनाथ पिंडक ने कहा सिन्धु-स्वन में
 प्राची के आंगन में सद्योदित बालारुण
 खोल रहा था सालस, सस्मित अरुणिम लोचन
 श्रावन्ती सौंघों की ओट में, गगन में ।
 वैतालिक दल भी अभी था प्रगाढ़ निद्रा-लीन
 शुरू अभी तक था हुआ मांगलिक गान भीन
 दुविधायुत स्वरों में पिक ने छेड़ी मृदु कुहू तान
 भिक्षु यों पुकार उठा 'निद्रारत हे पुरजन !
 भिक्षा दो, करो दूर तंद्रा का सम्मोहन'
 सुप्त परिजन, यह सुन, सिहर, हुए कम्पमान
 बोल उठे साधु, सुनो, वर्षा के मेघ सदय
 देते है नवजीवन जग को, कर निज को क्षय,
 त्याग सकल धर्मों का सार है भुवन में'



कैलाश पर्वत के शिखरों से दूरागत
मंद्र गुरु गंभीर भैरव संगीतवत
गूँजी वह वाणी सुख-तंद्रिल भवन में।

राजा ने जागकर, सोचा, वृथा राज्य-धन
सोचा गृहस्थी ने, तुच्छ मिथ्या यह आयोजन
अश्रु अकारण करतीं विसर्जन वालाएँ
जो कि विकल हृदया थीं ललित सुख-विलास-लीन
लगता हो जैसे गत यामिनि की छवि-विहीन
स्खलित दलित शुष्क कामिनी की म्लान मालाएँ।

खुल गए वातायन, गली-गली घर-घर
निद्रा हुई भंग, नयन भाँक रहे स्तर-स्तर
कौतुक से अंधियारे पथ में रहे निहार
जागो, रे जागो, दो भिक्षा यही छेड़ टेक
निद्राहीन दृग से सुप्त सौधों की ओर देख
शून्य राज-पथ में हैं चलते भिक्षुक पुकार।

फेंक रहे पथ में घनिक घनिकाएँ सत्वर
रत्न-मणि-माणिक-कणिकाएँ मुष्टि भर-भर
कोई तो मस्तक मणि कोई तो कंठहार
लाते हैं घनिक स्वर्ण थाल भर-भर कर
दूर पड़े रहते, साधु डालते नहीं नजर
कहते, दो भीख, जो कि प्रभु को हो अंगीकार।

वसन और भूषण से ढक गयी घरती
कनक रतन विजली है चकाचींध करती
झोली ले शून्य, भिक्षु कहते पुरजन से



पौरजन कान खोल, करो सब अवधान
 भिक्षु श्रेष्ठ जो है तथागत बुद्ध भगवान
 दो उन्हें तुम्हारी सर्व श्रेष्ठ निधि जतन से' ।
 लौट गए राजा और लौट गए नगर सेठ
 प्रभु के उपयुक्त किन्तु मिली नहीं कोई भेंट
 नगरी विशाल हुई लज्जा से नत आनन
 चटक उठी धूप और जाग उठा सारा देश
 महानगरी का हुआ दीर्घ पथ निःशेष
 साधु ने किया प्रवेश कानन में आकुल मन ।
 एक दीन नारी थी भूतल करती गयन
 अंगों पर उसके थे नहीं वंसन आभूषण
 आकर वह नमित हुई साधु-पद-कमल में
 रह कर अरण्य अंतराल में किसी प्रकार
 एक मात्र वस्त्र खंड गात से लिया उतार
 बाहु बड़ा, फेंक दिया पथ में, भूतल में ।
 भिक्षु ऊर्ध्व-भुज से तब कर उठा जयनाद
 'धन्य धन्य मातः', धन्य, स्वस्ति, आशीर्वाद
 साध महाभिक्षुक की पूरी की पल में'
 चल दिया संन्यासी नगरी को तज कर
 छिन्न वह चीर-खंड धर कर निज सिर पर
 भेंटने को उसे बुद्ध पद-नख-छवि-तल में ।

प्रार्थनातीत दान



•

जब पठान बाँध कर लाए बंदी सिख दल ।

हुआ शहीदगंज में, रक्तम धरणी का तल ।

तब नवाब ने कहा, 'मुनो, तर्हसिह वीरवर
उपकृत करना चाह रहे हम तुम्हें क्षमा कर ।'

यों नवाब को दिया वीरवर ने प्रत्युत्तर,
'हुई मुझी पर है इतनी अनुकम्पा क्यों कर ।'

'तुम हो वीर, इसीसे तुम पर क्रोध नहीं है
केश काट कर दे दो, वस अनुरोध यही है ।'

'इस करुणा, इस कृपा हेतु चिर-ऋणी रहूँगा ।
मांगे से भी अधिक, केश संग शिर भी दूँगा ।'

शुद्धि-पत्र

पृष्ठसंख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	वायु-विपित	वायु-निर्वापित
५	राजपूतनी	राजपूतानी
६	एक लौ	एक सौ
७	दायां	दायाँ
”	कुजभटका	कुज्झटिका
८	अखियाँ	अँखियाँ
९	स्त्रेण	स्त्रेण
१४	कठ	कंठ
”	पर से	परसे
”	भगवाद् !	भगवद् !
१५	पाकर मुझे	पाकर तुझे
”	मोद में	मोद मैं
१६	भर्तृहीना	भर्तृहीना
”	मोद में	मोद मैं
२१	राजारामसिंह	राजारामसिंह
२५	स्नान की	स्नान को
२६	प्रताप	प्रलाप
”	स्मित	स्मिति
२७	तम करूँगी में	तम करूँगी मैं
”	द्रुत जिह्वा	द्रुत जिह्वा
२८	रागिनी	रागिनि
”	भय-कातर	भयकातर
३३	साँवल	साँवले
”	प्रभोज्ज्वल	प्रभोज्ज्वल
३५	विजनप्रसाद	विजनप्रास
३६	डर	डरे
४०	गुरु	गुरु